

TECHNICAL BID/तकनीकी बोली

S NO क्रमांक	PARTICULARS विवरण	NATURE OF OFFER प्रस्ताव की प्रकृति
1	ADDRESS AND LOCATION OF THE PREMISES परिसर का स्थान एवं पता	
2	NAME/S OF THE OWNER/S WITH ADDRESS AND PHONE NUMBERS परिसर मालिक का नाम/पता एवं दूरभाष नं.	NAME: नाम: ADDRESS: पता : TELE. NO. दूरभाष नं. MOBILE NO. मोबाइल नं.
3	WHETHER THE OWNERS HAS CLEAR TITLE (PHOTOCOPY OF THE RELEVANT PAPERS TO BE ENCLOSED) परिसर मालिक द्वारा परिसर का मालिकाना हक प्रमाण- पत्र संलग्न.	
4	WHETHER ANY LOAN HAS BEEN AVAILED FOR THE PROPOSED PROPERTY. IF YES, THEN NOC HAS TO BE OBTAINED FROM THE BANK/FINANCIAL INSTITUTION यदि परिसर पर कोई ऋण लिया गया है, यदि हां तो बैंक/वित्तीय संस्था अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करे	IF YES, यदि हां . LANDLORD TO SUBMIT NOC FROM THE CONCERNED/ परिसर मालिक द्वारा संबंधित विभाग से NOC जमा करना
5	WHETHER THE PREMISES IS APPROVED COMMERCIAL NOC / CLEARANCES FROM MUNICIPAL AUTHORITIES FOR OPENING A BANK BRANCH / ATM & COMPLETION CERTIFICATE OF THE BUILDING/ परिसर मे बैंक शाखा/एटीएम खोलने के लिए व्यावसायिक अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं नगर पालिका अधिकारियों से मंजूरी प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करें	
6	AREA OFFERED क्षेत्र की पेशकश	GROUND FLOOR: SFT CARPET AREA भूतल वर्ग फीट चटाई क्षेत्र MEZZANINE FLOOR: मेजनाईन तल FIRST FLOOR : प्रथम तल TOTAL CARPET AREA: कुल चटाई क्षेत्र
7	DIRECT ACCESS FROM ROAD AND FRONTAGE सडक से सीधी पहुँच एवं पृष्ठ भाग	YES, AVAILABLE/ NO, NOT AVAILABLE हा, उपलब्ध / नहीं, उपलब्ध नहीं
8	ELECTRICITY / EXISTING LOAD ENHANCEMENT बिजली/वर्तमान लोड मे वृद्धि 50 KVA	3 PHASE 220 KVA ELECTRICITY LOAD TO BE ARRANGED BY THE LANDLORD AT HIS COST/ 3 फेस मीटर/ 50 के.वि.ए बिजली लोड मकान मालिक द्वारा स्वयं की लागत पर लगवाया जावेगा 50 KVA
9	PARKING SPACE पार्किंग स्थल	
10	SPACE FOR VOLTAGE STABILIZER वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए स्थान	

11	SPACE FOR V-SAT वी-सेट के लिए स्थान	To be provided by landlord
12	SPACE FOR GENSET जेन सेट के लिए स्थान	To be provided by landlord
13	SPACE FOR SIGN BOARDS साइन बोर्ड के लिए स्थान	To be provided by landlord
14	SPACE FOR AIR CONDITIONING UNITS ए.सी के लिए स्थान	To be provided by landlord
15	IF THE BUILDING IS TO BE CONSTRUCTED यदि भवन का निर्माण कार्य होना है	
16	TIME REQUIRED FOR COMPLETION OF CONSTRUCTION AND HANDING OVER THE PREMISES भवन को निर्मित करने में लगाने वाली अवधि एवं परिसर को सौंपने की अवधि	
17	IF THE BUILDING IS OLD WHETHER REPAIRS / RENOVATIONS IS REQUIRED यदि भवन पुराना है तो मरम्मत/पुनर्निर्माण की आवश्यकता	
18	PROVISION OF PROPER VENTILATION AND SECURITY MEASURES LIKE COLLAPSIBLE GATE / ROLLING SHUTTERS AT GATES / GRILL GATE / GRILL CROSS BARS / FALSE CEILING उचित वेंटीलेशन और सुरक्षा उपाय/ कोलेपसीबल दरवाजा/ग्रिल दरवाजा/ रोलिंग शटर दरवाजे का प्रावधान	
19	CONSTRUCTION OF STRONG ROOM BY LANDLORD/ परिसर मालिक द्वारा स्ट्रॉंग रूम का निर्माण करना	
20	PAYMENT OF ENGINEERS FEE FOR CERTIFYING THE STRONG ROOM AS PER RBI'S SPECIFICATIONS परिसर मालिक द्वारा आरबीआई के विनिर्देशों के अनुसार स्ट्रॉंग रूम प्रमाणित करने के लिए इंजीनियर के फीस का भुगतान करना	
21	INSURANCE OF THE BUILDING IN CASE OF LOAN IS REQUIRED परिसर का बीमा यदि परिसर मालिक परिसर पर ऋण चाहता है तो	
22	PROVISION OF EARTHING अर्थिंग का प्रावधान	

PLACE

स्थान :

SIGNATURE OF THE LAND LORD/S

DATE

दिनांक :

मकान मालिकों के हस्ताक्षर